



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 07 अक्तूबर, 2020 / 15 आश्विन, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

*Shimla-2, the 26th September, 2020*

**No. STE-A(3)-1/2004-loose.**—In partial modification of this Department's notification of even number dated 25.02.2020, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to define the Terms of Reference of the District and Block Level Committees constituted for the purpose of supervision of

preparation of People's Biodiversity Registers (PBRs) being prepared at Urban Local Body, Gram Panchayat, Block and District Levels, as per details given below:—

1. District Level Committee will co-ordinate, facilitate and supervise the preparation of People's Biodiversity Registers (PBRs) at all levels in the concerned District.
2. Block Level Committee will facilitate, scrutinize and approve the People's Biodiversity Registers (PBRs) at all levels in the concerned Block including ULBs.

By order,  
RAJNEESH, IAS  
Secretary (Env. & ST).

आबकारी एवं कराधान विभाग

शुद्धि-पत्र

शिमला-171002, 5 अक्टूबर, 2020

संख्या: ई०एक्स०एन०-ए(1)-3/2018.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-09-2020, जो कि राजपत्र हिमाचल प्रदेश में दिनांक 03-10-2020 को प्रकाशित हुई है, के प्रारूप संशोधन पैरा में अंकों तथा शब्दों “30<sup>th</sup> of June 2021.” के स्थान पर अंक तथा शब्द “30<sup>th</sup> of June.” पढ़े जाएं ।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
(जगदीश चन्द्र शर्मा),  
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

## EXCISE & TAXATION DEPARTMENT

### CORRIGENDUM

Shimla-2, the 5<sup>th</sup> October, 2020

**No. EXN-F (1)-3/2018.**—In the DRAFT AMENDMENTS Para of this department notification of even number, dated 30.09.2020, published in the Rajpatra of Himachal Pradesh on 03.10.2020, the words and figures “30<sup>th</sup> of June 2021.” may be read as “30<sup>th</sup> of June.”.

By order,

Sd/-  
(JAGDISH CHANDER SHARMA),  
Principal Secretary (E&T).

**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT HIMACHAL PRADESH**

FORM-6

(See rule – 9)

**NOTICE OF ADOPTION OF EXISTING LANDUSE MAP***Shimla, the 29<sup>th</sup> September, 2020*

**No. HIM/TP/PJT/PA-Amb-Gagret/2011/Vol-I/4720-42.**—Whereas, objections and suggestions were invited *vide* No. HIM/TP/PJT/PA-Amb-Gagret/2011/Vol-I/9860-90 dated 17-01-2019 with respect to the Existing Land Use Map for **Amb-Gagret** Planning Area under sub-section (1) of section 15 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977); and

Whereas, objections and suggestions were received and the modifications have been made in the said Existing Land Use Map, wherever, required.

Now, therefore, in exercise of the powers vested under sub-section (3) of section 15 of the Act *ibid*, notice is given that the Existing Land Use Map for **Amb-Gagret** Planning Area is hereby adopted without modifications and a copy thereof is available for inspection during office hours in the following offices:—

1. The Director,  
Town and Country Planning Department,  
Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar,  
Kasumpti, Shimla, Himachal Pradesh.
2. The Planning Officer,  
Town Planning Office,  
Amb-Gagret, District Una, Himachal Pradesh.

The said Existing Land Use Map shall come into operation with effect from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh and it shall be conclusive evidence of the fact that the Map has been duly prepared and adopted.

**Place: Shimla****Date: 29-09-2020**

-Sd-

**ROHIT JAMWAL (I.A.S.)***Director,**Town and Country Planning Department,  
Himachal Pradesh, Shimla – 171009.*

**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT HIMACHAL PRADESH****NOTICE OF PUBLICATION OF AMENDMENTS IN DEVELOPMENT PLAN FOR  
BILASPUR PLANNING AREA**

*Shimla, the 1<sup>st</sup> October, 2020*

**No. HIM/TP/PJT/AZR-Bilaspur/2013/Vol-I/4833-56.**—In exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 19 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the amendments proposed to be carried out in Development Plan for **Bilaspur Planning Area** notified *vide* Notification No. TCP-F (5)-8/2004 dated 04-08-2005, as per **Annexure-A**, are hereby published and Notice is given that a copy of the said proposed amendments is available for inspection during the office hours in the following offices:—

1. The Director,  
Town and Country Planning Department,  
Himachal Pradesh, Block No. 32-A, SDA Complex,  
Kasumpti, Shimla-171009.
2. The Assistant Town Planner,  
Sub-Divisional Town Planning Office,  
Bilaspur, Himachal Pradesh.
3. The Executive Officer,  
Municipal Council, Bilaspur,  
Distt. Bilaspur, Himachal Pradesh.

If any person, likely to be affected by the provisions of the aforesaid proposed amendments has any objection or suggestion with respect to the provisions of the aforesaid proposed amendments, he/she may send the same in writing to the Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Block No. 32-A, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009 or the Assistant Town Planner, Sub-Divisional Town Planning Office, Bilaspur, Himachal Pradesh, or the Executive Officer, Municipal Council, Bilaspur, Distt. Bilaspur, Himachal Pradesh within a period of **30 days** from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

Objections or suggestions, if any, received within the period as specified above, shall be taken into consideration before finalizing the provisions of the aforesaid proposed amendments.

Place: Shimla

Date: 1-10-2020

Sd/-  
**ROHIT JAMWAL (I.A.S.)**  
*Director,*  
*Town and Country Planning,*  
*Himachal Pradesh, Shimla – 171009.*

**AMENDMENTS IN CHAPTER 18**

In Chapter-18, titled Zoning and Sub-Division Regulations of the Development Plan for **Bilaspur Planning Area** following amendment is proposed to be carried out namely:—

Regulation (vi) of 18.3 General Regulations;

The last sentence/line of clause (vi) of Regulation 18.3, “The cases for change of land use shall be permitted by the State Government only,” shall stand deleted.

**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT HIMACHAL PRADESH****NOTICE OF PUBLICATION OF AMENDMENTS IN DEVELOPMENT PLAN FOR  
NADAUN PLANNING AREA**

*Shimla, the 1<sup>st</sup> October, 2020*

**No. HIM/TP/PJT/AZR- Nadaun /2019/Vol-I/4808-32.**—In exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 19 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the amendments proposed to be carried out in Development Plan for **Nadaun Planning Area** notified *vide* Notification No. **TCP-F(5)-6/2017** dated **27-01-2018**, as per **Annexure-A**, are hereby published and Notice is given that a copy of the said proposed amendments is available for inspection during the office hours in the following offices:—

1. The Director,  
Town and Country Planning Department,  
Himachal Pradesh, Block No. 32-A, SDA Complex,  
Kasumpti, Shimla, -171009.
2. The Town & Country Planner,  
Divisional Town Planning Office,  
Hamirpur, Himachal Pradesh.
3. The Planning Officer,  
Town Planning Office,  
Nadaun, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh.
4. The Secretary,  
Nagar Panchayat Nadaun,  
Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh.

If any person, likely to be affected by the provisions of the aforesaid proposed amendments has any objection or suggestion with respect to the provisions of the aforesaid proposed amendments, he/she may send the same in writing to the Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Block No. 32-A, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009 or the Town & Country Planner, Divisional Town Planning Office, Hamirpur, Himachal Pradesh or the Planning Officer, Town Planning Office, Nadaun, Distt. Hamirpur,

Himachal Pradesh or the Secretary, Nagar Panchayat Nadaun, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh within a period of **30 days** from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

Objections or suggestions, if any, received within the period as specified above, shall be taken into consideration before finalizing the provisions of the aforesaid proposed amendments.

**Place: Shimla**

**Date: 1-10-2020**

*Sd/-*

**ROHIT JAMWAL (I.A.S.)**

Director,  
Town and Country Planning,  
Himachal Pradesh, Shimla –171009.

ANNEXURE-A

### AMENDMENTS IN CHAPTER 16

In Chapter-16, titled General Development Regulation, Building By-Laws and Procedure of Plan Sanction of the Development Plan for **Nadaun Planning Area** following amendments are proposed to be carry out namely:—

1. The clause (d) of regulation No. 7 of 16.2.2.1 shall be substituted, namely:—

“(d) Above 250M<sup>2</sup> to 500 M<sup>2</sup>

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| (i) Floor Area Ratio (FAR) | 1.75           |
| (ii) Maximum Height        | 18.00 Metres.” |

2. The regulation 16.13 shall be substituted, namely—

**“16.13. Change of Land Use :**

- (i) The change of landuse shall be allowed by the Director (TCP) subject to the condition that the landuse proposed by the applicant is compatible with the landuse earmarked in the Development Plan and case fulfils the Regulation applicable for landuse proposed to be changed. No obnoxious, environmentally, hazardous or non-conforming landuse shall be allowed.
- (ii) Change of Building Use may be permitted by the Director (TCP), as the case may be, on merit of the case, subject to the condition that there is no disturbance to the adjoining building owners and fulfillment of other Regulations specified for the purpose.
- (iii) No change of land use shall be permitted for the Sericulture land parcel as marked in the Development Plan, for any other activities which is not subservient to sericulture.”

3. In clause (a) Activities Permitted of 16.16.8 PRIMARY ACTIVITY USE (PA) the words "Farm houses and accessory building" shall be substituted with "Residence plotted (detached, semi-detached and row housing), Group housing & commercial service, School."

### हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय, शिमला-171004

अधिसूचना

शिमला-4, 05 अक्टूबर, 2020

**संख्या वि०स०/स्था०/वि०परीक्षा/6-41/2000-V.**—हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या: 6-41/2000-वि०स०, दिनांक 20 अप्रैल, 2002 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा) विनियम, 2002 के अनुसरण में इस सचिवालय के पात्र ऐसे राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्होंने अभी तक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है या अंशतः उत्तीर्ण की है, को सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों में निहित विभागीय परीक्षा की तिथियां दिनांक 15, 16 एवं 17 अक्टूबर, 2020 को निश्चित की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्र० सं०	दिनांक	समय	पेपर संख्या
1.	15-10-2020	11.00 बजे (पूर्वाह्न) से 2.00 बजे (अपराह्न) तक	I
2.	16-10-2020	11.00 बजे (पूर्वाह्न) से 2.00 बजे (अपराह्न) तक	II
3..	17-10-2020	11.00 बजे (पूर्वाह्न) से 2.00 बजे (अपराह्न) तक	III

पात्रता एवं अन्य सम्बन्धित शर्तें हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा) विनियम, 2002 के अनुरूप होंगी।

आदेश,

हस्ताक्षरित/—

सचिव,

हि०प्र० विधान सभा।

### हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अधिसूचना

दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

**सं०.वि०स०-विधायन-समिति गठन/1-14/2018.**—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 209 और 211 के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष ने विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/मंत्रियों/विधायकों/पूर्व विधायकों की समस्याओं के निवारण हेतु सदस्य समस्या निवारण समिति वर्ष 2020-2021 के लिए निम्न सदस्य को सभापति तथा सदस्य नामांकित किया है :—

### सदस्य समस्या निवारण समिति

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 1. माननीय अध्यक्ष महोदय       | .. सभापति |
| 2. माननीय संसदीय कार्य मंत्री | .. सदस्य  |
| 3. श्री राम लाल ठाकुर         | .. सदस्य  |

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 4. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु | .. सदस्य |
| 5. श्री राकेश जम्वाल           | .. सदस्य |

हस्ताक्षरित /—  
सचिव,  
हि0प्र0 विधान सभा।

### न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री हरि चन्द पुत्र श्री फरंगो पुत्र श्री लिहलो, निवासी व महाल कनियाडका फाटी, डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

स्व0 श्री बंको पुत्र श्री फकीरु पुत्र सुचेता, निवासी गांव बोगड, डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) की पंजीकृत वसीयत वसीका संख्या 9/2002 दिनांक 08-02-2002 अनुसार ई0 नं0 205 वरास्त वसीयत महाल कनियाडका फाटी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) के सत्यापन बारे इशतहार।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी श्री हरि चन्द ने अपने जीजा स्व0 श्री बंको पुत्र श्री फकीरु पुत्र सुचेता, निवासी गांव बोगड, डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा द्वारा पंजीकृत करवाई गई वसीका संख्या 9/2002 दिनांक 08-02-2002 की मूल प्रति प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना-पत्र दायर किया है जिसके द्वारा प्रार्थी ने वसीयतनामा के अनुसार वसीयतकर्ता द्वारा प्रार्थी को मुहाल कनियाडका फाटी में स्थित भूमि दी है जिसका इन्तकाल नं0 105 वरास्त वसीयत बाबत भूमि खाता नं0 10, 11, 17 व 28 महाल कनियाडका फाटी, तहसील डलहौजी सत्यापन हेतु दर्ज किया जा चुका है जिसकी सूचना मृतक के वारसान को दी जा चुकी है जिसमें से अधिकतर वारसान हाजिर हो चुके हैं। परन्तु कुछ वारसान हाजिर नहीं हो रहे हैं। इन्तकाल सत्यापन की अगली तारीख 20-10-2020 को पटवार भवन बनीखेत में निश्चित की गई है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त इन्तकाल के सन्दर्भ में यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत बयुकाम, पटवार भवन बनीखेत में दिनांक 20-10-2020 को अथवा उससे पहले कार्यालय सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी डलहौजी में हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके इन्तकाल नियमानुसार प्रार्थी के पक्ष में सत्यापित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 11-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुये।

मोहर।

राजेश कुमार जरयाल,  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी  
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत डॉ० वरूण गुलाटी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहडू, जिला शिमला,  
हिमाचल प्रदेश**

सोनिका पुत्री स्व० श्री कंवर सिंह, निवासी कलगांव, डाकघर पुजारली नं० 2, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त बाबत नाम परिवर्तन सोनू के स्थान पर सोनिका करने बारे।

इस कार्यालय में सोनिका पुत्री स्व० श्री कंवर सिंह, निवासी कलगांव, डाकघर पुजारली नं० 2, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका नाम कुमारी सोनू से बदल कर सोनिका रख दिया गया है।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन कर सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस नाम को बदलने बारे किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वह दिनांक 09-10-2020 तक असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि सोनू का नाम परिवर्तन करने में किसी को आपत्ति नहीं है तथा प्रार्थिया का नाम बदलने बारे नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03-09-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

वरूण गुलाटी,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहडू,  
जिला शिमला (हि० प्र०)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी रोहडू, तहसील रोहडू, जिला शिमला,  
हिमाचल प्रदेश**

सन्तोष कुमारी पुत्री स्व० श्री चैत राम हाल पत्नी श्री परमा नन्द, निवासी सैन्जी, डाकघर समोली तहसील रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त जेर धारा 37 बाबत नाम दुरुस्ती भूमि खाता नं० 29, 28, 66, 24 व 30 चक अस्तानी।

इस कार्यालय में श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्री स्व० श्री चैत राम हाल पत्नी श्री परमा नन्द, निवासी सैन्जी, डाकघर समोली, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि भूमि खाता नं० 29, 28, 66, 24 व 30 चक अस्तानी में प्रार्थिया का नाम कौशल्या देवी दर्ज किया गया है जबकि उसका वास्तविक नाम सन्तोष कुमारी है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्री स्व० श्री चैत राम हाल पत्नी श्री परमा नन्द, निवासी सैन्जी, डाकघर समोली, तहसील रोहडू का नाम उपरोक्त अराजी में दुरुस्त करने बारे किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वह दिनांक 15-10-2020 तक असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थिया का नाम उपरोक्त भूमि में दुरुस्त करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नियमानुसार नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08-09-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी रोहडू,  
जिला शिमला (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री एम० आर० कश्यप, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-मण्डल डोडरा क्वार,  
जिला शिमला (हि० प्र०)

श्री जयदेव पुत्र गोखल राम, निवासी गांव कित्रवाड़ी, डाकघर क्वार, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त बराए नाम व जन्म तिथि की दुरुस्ती पंचायत रिकार्ड में किए जाने बारे।

श्री जयदेव पुत्र गोखल राम, निवासी गांव कित्रवाड़ी, डाकघर क्वार, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक दरखास्त पेश की है जिसमें आग्रह किया है कि उसके पुत्र चेतन की जन्म तिथि 31-05-2002 दर्ज है जो कि गलत है। जबकि स्कूल रिकार्ड अनुसार 31-05-2003 दर्ज है जो सही है। अतः दुरुस्ती आदेश जारी किये जाएं।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह तारीख पेशी 21-10-2020 को प्रातः 10 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। यदि निश्चित तारीख पेशी को किसी भी व्यक्ति से कोई एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो नाम की दुरुस्ती हेतु ग्राम पंचायत धन्द्रवाड़ी, तहसील डोडरा क्वार से एकतरफा आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 21-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
डोडरा क्वार, जिला शिमला, हि० प्र०।

**ब अदालत श्री एम0 आर0 कश्यप, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-मण्डल डोडरा क्वार,  
जिला शिमला (हि0 प्र0)**

श्री जयदेव पुत्र गोखल राम, निवासी गांव कित्रवाड़ी, डाकघर क्वार, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त बराए नाम व जन्म तिथि की दुरुस्ती पंचायत रिकार्ड में किए जाने बारे।

श्री जयदेव पुत्र गोखल राम, निवासी गांव कित्रवाड़ी, डाकघर क्वार, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक दरखास्त पेश की है जिसमें आग्रह किया है कि पंचायत रिकार्ड में उसकी पुत्री अधिति की जन्म तिथि 20-10-2004 दर्ज है जो कि गलत है। जबकि स्कूल रिकार्ड अनुसार 20-10-2005 दर्ज है जो सही है। अतः दुरुस्ती आदेश जारी किये जाएं

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह तारीख पेशी 21-10-2020 को प्रातः 10 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। यदि निश्चित तारीख पेशी को किसी भी व्यक्ति से कोई एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो नाम की दुरुस्ती हेतु ग्राम पंचायत धन्द्रवाड़ी, तहसील डोडरा क्वार को एकतरफा आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 21-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
डोडरा क्वार, जिला शिमला, हि0 प्र0।

**In the Court of Shri Manoj Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),  
District Shimla (H. P.)**

Sh. Suneel Dutt s/o Late Sh. Kundan Singh, r/o V.P.O. Mehli, Kasumpti, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.

*Versus*

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Suneel Dutt s/o Late Sh. Kundan Singh, r/o V.P.O. Mehli, Kasumpti, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of his daughter named— Charu Verma d/o Sh. Suneel Dutt s/o Late Sh. Kundan Singh, r/o V.P.O. Mehli, Kasumpti, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Municipal Corporation, District Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Charu Verma	Daughter	07-10-2014

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding enter the name/date of birth of above named in the record of Municipal Corporation, District Shimla, may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 22-09-2020 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-  
Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Manjeet Sharma (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),  
District Shimla, Himachal Pradesh**

Sh. Deepak s/o Sh. Gian, resident of Quarter No. 03, M. C. Quarter Chhota Shimla, Tehsil  
& Distt. Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

*Versus*

General Public

. . Respondent.

*Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.*

Sh. Deepak s/o Sh. Gian, resident of Quarter No. 03, M. C. Quarter Chhota Shimla, Tehsil  
& Distt. Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration  
of date of death of his Grand Father namely GIRDHARI LAL, DOD 14-10-2002 at above address  
in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore, through this proclamation, the general public is hereby informed that any person  
having any objection for entry as to date of death mentioned above, may submit his objection in  
writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official  
Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided  
accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 30th September, 2020.

Seal.

MANJEET SHARMA (HPAS),  
Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर,  
जिला शिमला (हि० प्र०)

मुकद्दमा नं० : 17 / 2019

तारीख दायर : 08-09-2020

श्री यशपाल पुत्र स्व० श्री जोबन दास, गांव टूटू, डाकघर देलठ, तहसील ननखरी, जिला शिमला  
(हि० प्र०) . . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं० 120 मिन/275 मिन, महाल टूटू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०)।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरखास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री यशपाल पुत्र स्व० श्री जोबन दास, गांव टूटू, डाकघर देलठ, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि० प्र०) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक जमाबन्दी 2015-16 प्रार्थी के पिता का नाम चैपी पुत्र रतन दास दर्शाया गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम जोबन दास उर्फ चैपी पुत्र रतन दास है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने नकल इन्तकाल आदि संलग्न दरखास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपने पिता का नाम उक्त कागजात में चैपी पुत्र रतन दास के स्थान पर जोबन दास उर्फ चैपी पुत्र रतन दास दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में जोबन दास उर्फ चैपी दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2020 को प्रातः 10.00 बजे असागतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

देवा चन्द नेगी,  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर,  
जिला शिमला (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर,  
जिला शिमला (हि० प्र०)

मुकद्दमा नं० : 19/2020

तारीख दायर : 08-09-2020

श्री डोफी पुत्र स्व० श्री थोलू, गांव धार, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०) प्रार्थी।

बनाम

1. श्री तुफान पुत्र राम दास पुत्र श्री जीबू, निवासी गांव धार, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०), 2. श्री ईशरत पुत्र राम दास पुत्र जीबू, गांव धार, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि० प्र०), 3. कुमारी सुनैना पुत्री राम दास पुत्र जीबू, गांव धार, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०), 4. कुमारी बिरमा देवी पत्नी श्री राम दास, गांव धार, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि० प्र०), 5. श्री कृष्ण लाल पुत्र जीबू, पुत्र चुहलू, गांव धार, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि० प्र०), 6. श्रीमती लीलावती पुत्री जीबू, डाकघर धार, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि० प्र०) प्रतिवादी।

दरखास्त कब्जा दुरुस्ती अराजी खाता/खतौनी नं० 56 मिन/121, खसरा नं० 246, 639 व 648, कित्ता-3, रकबा तादादी 00-51-49 है वाका चक उरु, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०)।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरखास्त कब्जा दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री डोफी पुत्र स्व० श्री थोलू, गांव धार, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि

अराजी खाता/खतौनी नं० 56 मिन/121, खसरा नं० 246, 639 व 648, कित्ते-3, रकबा तादादी 00-51-49 है० वाका चक उरू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि०प्र०) के खाना काश्त में जीबू पुत्र चुलू पुत्र दौलत स्थानीय वासी का कब्जा दर्ज इन्द्राज है। प्रार्थी जिसे दुरुस्त करवा करके डोफी पुत्र थोलू का कब्जा दर्ज इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में डौफी पुत्र थोलू का कब्जा दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2020 को प्रातः 10.00 बजे असागतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

देवा चन्द नेगी,  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर,  
जिला शिमला (हि० प्र०)।

-----

**ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर,  
जिला शिमला (हि० प्र०)**

मुकद्दमा नं० : 14/2020

तारीख दायर : 02-09-2020

श्रीमती वीनता देवी पत्नी श्री ईश्वर दास, निवासी गांव कलेडा, डाकघर सूरड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं० 32/83, 33/94, हाल कलेडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि०प्र०)।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरखास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थिया श्रीमती वीनता देवी पत्नी श्री कौल राम, हालाबाद पत्नी श्री ईश्वर दास, निवासी गांव कलेडा, डाकघर सूरड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक विद्यालय प्रमाण-पत्र व नकल परिवार, ग्राम पंचायत कलेडा, मझेवटी में प्रार्थिया का नाम वीनता देवी सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं० 32/83, 33/94, महाल निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि०प्र०) के खाना मालिक में विन्द्रा देवी पुत्री कौल राम दर्शाया गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम वीनता देवी है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने छायाप्रति विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेज संलग्न दरखास्त कर रखे हैं। प्रार्थिया अपना नाम उक्त माल कागजात में विन्द्रा देवी के स्थान पर वीनता देवी दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में वीनता देवी दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2020 को प्रातः 10.00 बजे असागतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

देवा चन्द नेगी,  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर,  
जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर,  
जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 :

तारीख दायर :

श्री केहर सिंह पुत्र स्व0 श्री हिरा सिंह, निवासी वार्ड नं0 9 चूहाबाग, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 52 मिन/77 मिन, महाल रचौली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरखास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री केहर सिंह पुत्र स्व0 श्री हिरा सिंह, निवासी वार्ड नं0 9 चूहाबाग, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक जमाबन्दी 2015-14 प्रार्थी की माता का नाम श्रीमती भाग दासी दर्शाया गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी की माता का सही नाम मान दासी पत्नी हिरा सिंह है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने मृत्यु प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड आदि संलग्न दरखास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपनी माता का नाम उक्त माल कागजात में भाग दासी पत्नी हीरा सिंह दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में मान दासी दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

देवा चन्द नेगी,  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर,  
जिला शिमला (हि0 प्र0)।

